



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-18122024-259491
CG-RJ-E-18122024-259491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5048]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2024/अग्रहायण 26, 1946

No. 5048]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2024/AGRAHAYANA 26, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 17 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5455(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधित) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii) तारीख 16 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे, निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या कां० आ० 4547(अ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के चित्तोड़गढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, “बड़ी सादड़ी – नीमच नई बड़ी लाईन रेल परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् “दैनिक भास्कर” में तारीख 19 अक्टूबर, 2024 को तथा “राजस्थान पत्रिका” में तारीख 21 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त रेल अधिनियम, की धारा 20इ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची							
राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना बड़ी सादड़ी - नीमच नई बड़ी लाइन रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण							
जिले का नाम		चित्तोड़गढ़					
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	सर्वे / खसरा संख्या	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	बड़ीसादड़ी	अम्बावली	निजी भूमि	468/299	चाही 3	0.0931	1.) खर्शीदअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 2.) जूहेरआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 3.) डा.हनीफअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 4.) परवेजआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 5.) फायजा पुत्री मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 6.) फिरोजा पत्नि मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 7.) शहादतआजम पत्नि इकबालआजम हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बड़ीसादड़ी खातेदार 8.) नाबालिग समीर पुत्र मोईनअहमद संरक्षक माता फिरोजा हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा.

							बडीसादडी खातेदार
2	बडीसादडी	अम्बावली	निजी भूमि	470/300	चाही 3	0.3629	<p>1.) खर्शीदअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>2.) जूहेरआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>3.) डा.हनीफअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>4.) परवेजआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>5.) फायजा पुत्री मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>6.) फिरोजा पत्नि मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>7.) शहादतआजम पत्नि इकबालआजम हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>8.) नाबालिग समीर पुत्र मोईनअहमद संरक्षक माता फिरोजा हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p>
3	बडीसादडी	अम्बावली	निजी भूमि	473/298	चाही 3	0.0316	<p>1.) खर्शीदअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>2.) जूहेरआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>3.) डा.हनीफअहमदआजम पुत्र हमीदखां हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>4.) परवेजआजम पुत्र इकबालअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>5.) फायजा पुत्री मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>6.) फिरोजा पत्नि मोईनअहमद हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार</p> <p>7.) शहादतआजम पत्नि</p>

							इकबालआजम हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार 8.) नाबालिग समीर पुत्र मोईनअहमद सरंक्षक माता फिरोजा हिस्सा- 1/12 जाति- मुसलमान सा. बडीसादडी खातेदार
ग्राम – अम्बावली की निजी भूमि का कुल योग (हेक्टेयर में)						0.4876	

[फा. सं.उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-11]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 17th December, 2024

S.O. 5455(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organization), Notification number S.O. 4547 (E) dated 16th October, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub section (ii) (herein after referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act). The Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “Bari Sadri – Nimach new Broad gauge line project” in District Chittorgarh in the State of Rajasthan.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily local newspapers and “Dainik Bhasker” dated 19th October, 2024 and in “Rajasthan Patrika” 21st October-2024 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Bari Sadri- Nimach new Broad gauge Rail line project., State of Rajasthan							
District Name			Chittorgarh				
S.No.	Name of the Tehsil	Name of the Village	Type of Land	Survey / Khasra No.	Nature of Land	Area to be acquired (in Hect.)	Name of Land owners / interested person
1	Bari Sadri	Ambawali	Private Land	468/299	Chahi 3	0.0931	1.) Kharshid Ahmed Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder 2.) Zuher Azam son of Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder 3.) Dr. Hanif Ahmed

							<p>Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>4.) Parvez Azam son of Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>5.) Faiza daughter of Moin Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p> <p>6.) Firoza wife of Moin Ahmad Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar 7.) Shahadat Azam wife of Iqbal Azam Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p> <p>8.) Minor Sameer son of Moin Ahmad Guardian Mother Firoza Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p>
2	Bari Sadri	Ambawali	Private Land	470/300	Chahi 3	0.3629	<p>1.) Kharshid Ahmed Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>2.) Zuher Azam son of Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>3.) Dr. Hanif Ahmed Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>4.) Parvez Azam son of Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>5.) Faiza daughter of Moin Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p> <p>6.) Firoza wife of Moin Ahmad Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar 7.) Shahadat Azam wife of Iqbal Azam Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p> <p>8.) Minor Sameer son of Moin Ahmad Guardian Mother Firoza Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar</p>
3	Bari Sadri	Ambawali	Private Land	473/298	Chahi 3	0.0316	<p>1.) Kharshid Ahmed Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder</p> <p>2.) Zuher Azam son of</p>

							Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder 3.) Dr. Hanif Ahmed Azam son of Hamid Khan Share- 1/4 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder 4.) Parvez Azam son of Iqbal Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Account holder 5.) Faiza daughter of Moin Ahmed Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar 6.) Firoza wife of Moin Ahmad Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar 7.) Shahadat Azam wife of Iqbal Azam Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar 8.) Minor Sameer son of Moin Ahmad Guardian Mother Firoza Share- 1/12 Caste- Muslim S. Badisadi Khatedar
Total area of Pvt. Land of Ambawali Village (in Hect.)							0.4876

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XI]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)